



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939

No. 1082]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

**का. आ. 1224(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 12 अगस्त, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2701(अ), तारीख 11 अगस्त, 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 5609.06 हेक्टर(लगभग) या 13859.98 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की माप वाली भूमि को और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्शा करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट 5609.06 हेक्टर(लगभग) या 13859.98 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 5609.06 हेक्टर(लगभग) या 13859.98 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/14/2016, तारीख 14 दिसम्बर, 2016 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला चतरा और लातेहार, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, मगध और आग्रपाली, जिला चतरा और लातेहार, झारखंड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834 001, झारखंड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, रांची-834 031(झारखंड) के कार्यालय में किया जा सकता है।

## अनुसूची

मगध विस्तार-II ( 51.0 एमटीवाई )

जिला चतरा और लातेहार ( झारखंड )

( रेखांक संख्या आरईवी/14/2016, तारीख 14 दिसम्बर, 2016 )

सभी अधिकार

ब्लॉक	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
ए	कुडलौंगा	टण्डवा	26 / 183	चतरा	23.54	भाग
ए	कुन्डी	टण्डवा	27 / 184	चतरा	6.77	भाग
ए	आरा	बालूमाथ	55	लातेहार	234.40	भाग
ए	चमातु	बालूमाथ	56	लातेहार	414.81	भाग
ए	फुलबसिया	बालूमाथ	58	लातेहार	480.18	भाग
ए	चटर	बालूमाथ	59	लातेहार	9.09	भाग
बी	सराधु	टण्डवा	29	चतरा	760.73	भाग
बी	चमातु	बालूमाथ	56	लातेहार	255.18	भाग
बी	गनेशपुर	बालूमाथ	57	लातेहार	280.82	भाग
बी	कामता	टण्डवा	60	चतरा	49.29	भाग
बी	मासीलौंग	टण्डवा	61	चतरा	80.12	भाग
बी	राहम	टण्डवा	62	चतरा	1015.23	भाग
बी	गोन्दा	टण्डवा	63	चतरा	423.49	भाग
बी	सिदपा	टण्डवा	64	चतरा	597.27	भाग
बी	दहु	टण्डवा	65	चतरा	901.21	भाग
बी	बड़ागाँव	टण्डवा	66	चतरा	76.93	भाग
कुल:					5609.06 हेक्टेयर (लगभग) या 13859.98 एकड़ (लगभग)	

(1) ग्राम कुडलौंगा में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या : 402(भाग), 606(भाग), 575(भाग), 576(भाग), 569(भाग), 605(भाग)।

(2) ग्राम कुन्डी में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या : 1 (भाग)।

(3) ग्राम आरा में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1 से 341,343(भाग), 430, 441 से 453,454(भाग), 697(भाग), 290/1983,2005,2041।

(4) ग्राम चमातु में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1 से 120, 122 से 441, 442(भाग), 443 से 468, 478 से 493, 494(भाग), 495 से 502, 1368 से 1586, 2231(भाग), 2232, 2233(भाग), 2234, 2235, 2236(भाग), 2239(भाग),

2240, 2241(भाग), 2242, 2243, 2244(भाग), 2523, 2524, 2525, 2526(भाग), 2529(भाग), 2530 से 2537, 2538(भाग), 2520/2605, 355/2601, 355/2602, 355/2603, 355/3604, 254/2539, 304/2540, 197/2541, 197/2542, 197/2543, 346/2544, 269/2545, 326/2546, 331/2547, 301/2548, 494/2593, 494/2594, 494/2595, 494/2596, 494/2597, 494/2598, 494/2599, 355/2600, 355/2601, 355/2602, 355/2603, 355/2604, 254/2611, 281/2612, 305/2618, 1437/2573, 1574/2688, 1372/2692, 47/2606, 47/2607, 47/2608, 47/2609, 47/2610, 47/2646, 47/2647, 47/2648, 47/2649, 47/2650, 47/2651, 47/2652, 47/2653, 47/2654, 47/2655, 47/2656, 47/2657, 47/2658, 47/2659, 157/2660, 157/2661, 157/2662, 157/2663, 157/2664, 157/2665, 157/2666, 157/2667, 157/2668, 157/2669, 157/2670, 157/2671, 157/2672, 157/2673, 157/2674, 157/2675, 157/2676, 157/2677, 157/2678, 157/2679, 157/2680, 157/2681, 157/2682, 157/2683, 157/2684, 157/2685, 157/2686, 157/2687।

(5) ग्राम फुलबसिया में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 159(भाग), 160(भाग), 161(भाग), 162 से 191, 192(भाग), 193(भाग), 194 से 203, 204(भाग), 205(भाग), 207(भाग), 210(भाग), 213(भाग), 214 से 218, 237(भाग), 238(भाग), 251(भाग), 252(भाग), 253(भाग), 254(भाग), 255(भाग), 256 से 271, 272(भाग), 273, 274(भाग), 275(भाग), 276(भाग), 277(भाग), 278(भाग), 313(भाग), 316(भाग), 317 से 498, 499(भाग), 500(भाग), 501(भाग), 504(भाग), 505 से 508, 509(भाग), 510 से 1220, 925/2974, 1023/2975, 832/2976, 429/2977, 411/2978, 918/2979, 917/2980, 977/2987, 817/2988, 317/2991, 1160/2999, 405/3002, 1221 से 1482, 1484 से 1554, 1556 से 1716, 1717(भाग), 1718, 1719(भाग), 1721(भाग), 1724(भाग), 1725 (भाग), 1726(भाग), 1728(भाग), 1729 से 1731, 1732(भाग), 1733(भाग), 1734(भाग), 1738(भाग), 1739(भाग), 1740(भाग), 1741 से 2210, 2212 से 2216, 2250(भाग), 2251(भाग), 2252(भाग), 2253(भाग), 2254(भाग), 2255(भाग), 2256(भाग), 2257 से 2266, 2267(भाग), 2268 से 2336, 2337(भाग), 2338(भाग), 2339(भाग), 1288/2989, 2300/2990, 1404/2994, 1752/2995, 1609/2997, 1609/2998, 2114/3000, 2107/3001, 1309/3003, 1673/3004, 2697(भाग), 2698 से 2708, 2710(भाग), 2711 से 2715, 2716(भाग), 2723 से 2730, 2747 से 2754, 2755(भाग)।

(6) ग्राम चटर में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 2(भाग), 199(भाग), 200(भाग), 201(भाग), 211(भाग), 212, 214, 215(भाग), 230(भाग), 231, 232(भाग), 233(भाग), 234(भाग), 236(भाग), 562(भाग), 563(भाग), 564(भाग), 566(भाग)।

(7) ग्राम सराधु में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 484(भाग), 722 से 751, 796(भाग), 874(भाग), 1731(भाग), 1732 से 1743, 1744(भाग), 1745 (भाग), 1746 से 1807, 1809 से 1817, 1819 से 1828, 735/1835, 1838 से 1928, 1933 से 1947, 1706(भाग), 1833(भाग), 1707(भाग), 1808.

(8) ग्राम कामता में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 772(भाग), 773(भाग), 774, 775, 776(भाग), 777(भाग), 780 से 788, 789(भाग), 790 से 797, 799 से 807(भाग), 808(भाग), 809 से 811, 812(भाग), 815, 816(भाग), 817 से 851, 852(भाग), 853 से 857, 904 से 938, 939(भाग), 940 से 944, 945(भाग), 946 से 955, 964 से 966, 992(भाग), 993(भाग), 994(भाग), 995(भाग), 996, 997(भाग), 1014(भाग), 1015, 1016(भाग), 1017(भाग), 1018(भाग).

(9) ग्राम मासीलौंग में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 19(भाग), 28(भाग), 29 से 52, 69(भाग), 73(भाग), 74(भाग), 75, 76(भाग), 78(भाग), 79(भाग), 80(भाग), 96(भाग), 115 से 124, 126 से 218, 220(भाग), 221 से 250, 252 से 259, 260(भाग), 261 से 275, 276(भाग), 277(भाग), 285, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 153/302, 132/303, 134/304, 49/305, 49/306, 164/307, 312, 318(भाग), 319(भाग), 320(भाग)।

(10) ग्राम राहम में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या : 278 से 280, 281(भाग), 282(भाग), 284 से 287, 400(भाग), 739(भाग), 750(भाग), 751(भाग), 752 से 778, 779(भाग), 780(भाग), 781(भाग), 784(भाग), 1200(भाग), 1201(भाग), 1204(भाग), 1218(भाग), 1221(भाग), 1222(भाग), 1223, 1224(भाग), 1225, 1226, 1227(भाग), 1228(भाग), 1229, 1230(भाग), 1244(भाग), 1245 से 1362, 1363(भाग), 1365(भाग), 1368(भाग), 1369(भाग), 1370(भाग), 1371(भाग),

1372(भाग), 1373(भाग), 1381(भाग), 1382(भाग), 1383(भाग), 1384(भाग), 1385(भाग), 1386(भाग), 1387(भाग), 1388(भाग), 1389(भाग), 1390(भाग), 1391, 1392(भाग), 1393, 1394(भाग), 1395(भाग), 1396(भाग), 1397(भाग), 1398(भाग), 1399 से 1414, 1415(भाग), 1445(भाग), 1985(भाग), 1986 to 1997, 1998(भाग), 1999, 2000, 2001(भाग), 2002(भाग), 2072(भाग), 2084(भाग), 2085(भाग), 2086 to 2103, 2104(भाग), 2107(भाग), 2114(भाग), 2115(भाग), 2116, 2117, 2131(भाग), 2132(भाग), 2134(भाग), 2135(भाग), 2136 से 2444, 2447 से 2900, 764/2911, 763/2912, 763/2913, 764/2914, 2914/2915, 2915/2916, 767/2917, 768/2918, 2918/2919, 2918/2920, 2301/2921, 2312/2922, 2537/2923, 2831/2924, 2869/2925, 2883/2926, 2228/2927, 2927/2928, 2590/2929, 2590/2930, 2590/2931, 2590/2932, 2590/2933, 2590/2934, 2590/2935, 2590/2936, 2590/2937, 2590/2938, 2590/2939, 2590/2940, 2590/2941, 2590/2942, 2590/2943, 2590/2944, 2590/2945, 2590/2946, 2590/2947, 2590/2948, 2590/2949, 2590/2950, 2590/2951, 2590/2952, 2590/2953, 2590/2954, 2590/2955, 2590/2956, 2590/2957, 2590/2958, 2590/2959, 2590/2960, 2590/2961, 2590/2962, 2590/2963, 2590/2964, 2590/2965, 2590/2966, 2590/2967, 2590/2968, 2590/2969, 2590/2970, 2590/2971, 2590/2972, 2590/2973, 2590/2974, 2590/2975, 2590/2976, 2590/2977, 2590/2978, 2590/2979, 2590/2980, 2258/2986, 1204/2998, 2949/2985।

(11) ग्राम गोन्दा में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1 से 172, 173(भाग), 174(भाग), 175(भाग), 176 से 208, 209(भाग), 210 से 212, 213(भाग), 214(भाग), 215(भाग), 239(भाग), 240(भाग), 241(भाग), 242(भाग), 247(भाग), 255(भाग), 256(भाग), 257, 258, 259(भाग), 260 से 330, 331(भाग), 332(भाग), 336(भाग), 337, 338(भाग), 340 से 395, 396(भाग), 397 से 415, 416(भाग), 7/433, 7/434, 358/435, 403/437, 438 से 491, 142/492(भाग), 339, 417(भाग)।

(12) ग्राम सिदपा में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1 से 288, 289(भाग), 290 से 471, 472(भाग), 473, 474(भाग), 476(भाग), 477, 478(भाग), 479, 480(भाग), 375/484, 466/485।

(13) ग्राम दहु में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1 से 6, 7(भाग), 11(भाग), 12 से 1038, 1039(भाग), 1040, 1041(भाग), 1042(भाग), 1043(भाग), 1045(भाग), 1053(भाग), 1054, 1055, 1056(भाग), 1057(भाग), 1058 से 1061, 1062(भाग), 1063 से 1075, 1076(भाग), 1079(भाग), 1082(भाग), 1084(भाग), 1146(भाग), 1160(भाग), 1161(भाग), 1162(भाग), 1163, 1164, 1165(भाग), 1166(भाग), 1167(भाग), 1526(भाग), 1530(भाग), 1531(भाग), 1532, 1533, 1534(भाग), 1540(भाग), 1541(भाग), 1544(भाग), 1545(भाग), 1546, 1547, 1548, 1549(भाग), 1550 से 1584, 1585(भाग), 1586 से 1593, 1594(भाग), 1595 से 1610, 1611(भाग), 1612 से 1831, 1832(भाग), 1833(भाग), 1834, 1835(भाग), 1836(भाग), 1854(भाग), 1855(भाग), 1858(भाग), 1859(भाग), 1860, 1861, 1862(भाग), 1863 से 1870, 1871(भाग), 1872 से 1879, 1880(भाग), 1882(भाग), 1889(भाग), 1890(भाग), 1891, 1892(भाग), 1893 से 1901, 1902(भाग), 1903(भाग), 1904(भाग), 1905(भाग), 2014(भाग), 158/2015, 370/2016, 633/2017, 452/2031, 746/2018, 747/2019, 748/2020, 896/2021, 896/2022, 860/2030, 1792/2028।

(14) ग्राम बड़ागाँव में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 1(भाग), 2(भाग), 3, 4(भाग), 12(भाग), 13(भाग), 14(भाग), 15, 16(भाग), 32(भाग), 919(भाग)।

(15) ग्राम गनेशपुर में अर्जित किये गए प्लॉटों की संख्या: 504(भाग), 505(भाग), 506(भाग), 507(भाग), 508(भाग), 509, 510, 511(भाग), 520(भाग), 521(भाग), 522 से 530, 531(भाग), 532(भाग), 535(भाग), 536(भाग), 538(भाग), 539 से 578, 1451 (भाग), 1452 से 1522, 452/3240, 1480/3248, 3236।

सीमा—वर्णन:

#### ब्लॉक—क

क—ख—ग—घ	रेखा, बिन्दु 'क' के ग्राम चेटर से प्रारंभ होकर (प्लॉट संख्या 02) ग्राम चेटर के बिन्दु 'ख' के माध्यम से (चेटर के विभिन्न प्लॉट) और बिन्दु 'ग' (ग्राम फुलबसिया और चेटर के सम्मिलित सीमा) रेखा से गुजरती हुई बिन्दु 'घ' (ग्राम फुलबसिया और चेटर के सम्मिलित सीमा रेखा) पर मिलती है।
घ—ड.—च	रेखा, बिन्दु 'घ' ग्राम फुलबसिया और चमातु, आरा चमातु के भिन्न—भिन्न प्लॉटों से गुजरती हुई ग्राम कुन्डी के बिंदु 'च' पर मिलती है।
च—छ—क	रेखा, ग्राम 'च' ग्राम कुन्डी एवं ग्राम कुडलौंगा और ग्राम आरा और कुडलौंगा चमातु एवं आरा के सम्मिलित सीमा एवं ग्राम फुलबसिया से गुजरती हुई ग्राम चेटर के प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

## ब्लॉक —ख

ज—झ—ञ—ट	रेखा, बिन्दु 'ज' से प्रारंभ होकर (ग्राम गनेशपुर के प्लॉट संख्या 511) मोहन डूबा नदी और दहु ग्राम के भिन्न-भिन्न प्लॉट से गुजरती हुई ( बिन्दु 'झ'), बड़कागाँव ( बिन्दु 'ञ'), ग्राम सिदपा, गोन्दा से गुजरती हुई ग्राम राहम के बिन्दु 'ट' पर मिलती है।
ट—ठ—ड	रेखा, बिबिन्दु 'ट') और ग्राम राहम के भिन्न-भिन्न प्लॉटों, कामता (बिन्दु 'ठ'), मासीलौंग के भिन्न-भिन्न प्लॉटों से गुजरती हुई ग्राम सराधु के बिन्दु 'ड' पर मिलती है।
ड—ण—त—थ—द घ ज	रेखा, बिन्दु ग्राम सराधु ( बिन्दु 'ड' और 'ण' ) बिन्दु 'त' (ग्राम मासीलौंग), बिन्दु 'थ', 'द' और 'ध' ग्राम चमातु से गुजरती हुई ग्राम गनेशपुर के प्रारंभिक बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

[ फा.सं. 43015/12/2015—एलए एण्ड आईआर/खंड—III ]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20<sup>th</sup> April, 2017

S.O. 1224 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2701 (E), dated the 11<sup>th</sup> August, 2016 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12<sup>th</sup> August, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire land measuring 5609.06 hectares (approximately) or 13859.98 acres (approximately) and all rights in or over such land specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the lands measuring 5609.06 hectares (approximately) or 13859.98 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in or over land measuring 5609.06 hectares (approximately) or 13859.98 acres (approximately), as described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/14/2016, dated the 14<sup>th</sup> December, 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Chatra and Latehar, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the Office of the of General Manager Magadh and Amrapali, District -Chatra and Latehar, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue ), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834 001, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834031, Jharkhand.

## SCHEDULE

**Magadh Expansion-II (51.0 MTY)  
District- Chatra and Latehar (Jharkhand)**

(Plan bearing number Rev/14/2016, dated the 14<sup>th</sup> December, 2016)

All Rights:

Block	Village	Thana	Thana number	District	Area in hectares	Remarks
A	Kurlounga	Tandwa	26/183	Chatra	23.54	Part
A	Kundi	Tandwa	27/184	Chatra	06.77	Part
A	Ara	Balumath	55	Latehar	234.40	Part
A	Chamatu	Balumath	56	Latehar	414.81	Part
A	Phulbasia	Balumath	58	Latehar	480.18	Part
A	Chetar	Balumath	59	Latehar	09.09	Part
B	Saradhu	Tandwa	29	Chatra	760.73	Part
B	Chamatu	Balumath	56	Latehar	255.18	Part
B	Ganeshpur	Balumath	57	Latehar	280.82	Part
B	Kamta	Tandwa	60	Chatra	49.29	Part
B	Masilaung	Tandwa	61	Chatra	80.12	Part
B	Raham	Tandwa	62	Chatra	1015.23	Part
B	Gonda	Tandwa	63	Chatra	423.49	Part
B	Sidpa	Tandwa	64	Chatra	597.27	Part
B	Dahu	Tandwa	65	Chatra	901.21	Part
B	Baragaon	Tandwa	66	Chatra	76.93	Part
Total:				5609.06 hectares (approximately) or 13859.98 acres (approximately)		

(1) Plot numbers acquired in village Kurlounga : 402(P), 606(P), 575(P), 576(P), 569(P), and 605 (P).

(2) Plot numbers acquired in village Kundi : 1(P).

(3) Plot numbers acquired in village Ara: 1 to 341, 343(P), 430, 441 to 453, 454(P), 697(P), 290/1983, 2005 and 2041.

(4) Plot numbers acquired in village Chamatu: 1 to 120, 122 to 441, 442(P), 443 to 468, 478 to 493, 494(P), 495 to 502, 1368 to 1586, 2231(P), 2232, 2233(P), 2234, 2235, 2236(P), 2239(P), 2240, 2241(P), 2242, 2243, 2244(P), 2523, 2524, 2525, 2526(P), 2529(P), 2530 to 2537, 2538(P), 2520/2605, 355/2601, 355/2602, 355/2603, 355/3604, 254/2539, 304/2540, 197/2541, 197/2542, 197/2543, 346/2544, 269/2545, 326/2546, 331/2547, 301/2548, 494/2593, 494/2594, 494/2595, 494/2596, 494/2597, 494/2598, 494/2599, 355/2600, 355/2601, 355/2602, 355/2603, 355/2604, 254/2611, 281/2612, 305/2618, 1437/2573, 1574/2688, 1372/2692, 47/2606, 47/2607, 47/2608, 47/2609, 47/2610, 47/2646, 47/2647, 47/2648, 47/2649, 47/2650, 47/2651, 47/2652, 47/2653, 47/2654, 47/2655, 47/2656, 47/2657, 47/2658, 47/2659, 157/2660, 157/2661, 157/ 2662, 157/2663, 157/2664, 157/2665, 157/2666, 157/2667, 157/2668, 157/2669, 157/2670, 157/2671,

157/2672, 157/2673, 157/2674, 157/2675, 157/2676, 157/2677, 157/2678, 157/2679, 157/2680, 157/2681, 157/2682, 157/2683, 157/2684, 157/2685, 157/2686 and 157/2687.

(5) Plot numbers acquired in village Phulbasia: 159(P), 160(P), 161(P), 162 to 191, 192(P), 193(P), 194 to 203, 204(P), 205(P), 207(P), 210(P), 213(P), 214 to 218, 237(P), 238(P), 251(P), 252(P), 253(P), 254(P), 255(P), 256 to 271, 272(P), 273, 274(P), 275(P), 276(P), 277(P), 278(P), 313(P), 316(P), 317 to 498, 499(P), 500(P), 501(P), 504(P), 505 to 508, 509(P), 510 to 1220, 925/2974, 1023/2975, 832/2976, 429/2977, 411/2978, 918/2979, 917/2980, 977/2987, 817/2988, 317/2991, 1160/2999, 405/3002, 1221 to 1482, 1484 to 1554, 1556 to 1716, 1717(P), 1718, 1719(P), 1721(P), 1724(P), 1725(P), 1726(P), 1728(P), 1729 to 1731, 1732(P), 1733(P), 1734(P), 1738(P), 1739(P), 1740(P), 1741 to 2210, 2212 to 2216, 2250(P), 2251(P), 2252(P), 2253(P), 2254(P), 2255(P), 2256(P), 2257 to 2266, 2267(P), 2268 to 2336, 2337(P), 2338(P), 2339(P), 1288/2989, 2300/2990, 1404/2994, 1752/2995, 1609/2997, 1609/2998, 2114/3000, 2107/3001, 1309/3003, 1673/3004, 2697(P), 2698 to 2708, 2710(P), 2711 to 2715, 2716(P), 2723 to 2730, 2747 to 2754 and 2755(P).

(6) Plot numbers acquired in village Chetar: 2(P), 199(P), 200(P), 201(P), 211(P), 212, 214, 215(P), 230(P), 231, 232(P), 233(P), 234(P), 236(P), 562(P), 563(P), 564(P), and 566(P).

(7) Plot numbers acquired in village Saradhu:- 484(P), 722 to 751, 796(P), 874(P), 1731(P), 1732 to 1743, 1744(P), 1745(P), 1746 to 1807, 1809 to 1817, 1819 to 1828, 735/1835, 1838 to 1928, 1933 to 1947, 1706(P), 1833(P), 1707(P) and 1808.

(8) Plot numbers acquired in village Kamta: 772(P), 773(P), 774, 775, 776(P), 777(P), 780 to 788, 789(P), 790 to 797, 799 to 806, 807(P), 808(P), 809 to 811, 812(P), 815, 816(P), 817 to 851, 852(P), 853 to 857, 904 to 938, 939(P), 940 to 944, 945(P), 946 to 955, 964 to 966, 992(P), 993(P), 994(P), 995(P), 996, 997(P), 1014(P), 1015, 1016(P), 1017(P) and 1018(P).

(9) Plot numbers acquired in village Masilaung: 19(P), 28(P), 29 to 52, 69(P), 73(P), 74(P), 75, 76(P), 78(P), 79(P), 80(P), 96(P), 115 to 124, 126 to 218, 220(P), 221 to 250, 252 to 259, 260(P), 261 to 275, 276(P), 277(P), 285, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 153/302, 132/303, 134/304, 49/305, 49/306, 164/307, 312, 318(P), 319(P) and 320(P).

(10) Plot numbers acquired in village Raham: 278 to 280, 281(P), 282(P), 284 to 287, 400(P), 739(P), 750(P), 751(P), 752 to 778, 779(P), 780(P), 781(P), 784(P), 1200(P), 1201(P), 1204(P), 1218(P), 1221(P), 1222(P), 1223, 1224(P), 1225, 1226, 1227(P), 1228(P), 1229, 1230(P), 1244(P), 1245 to 1362, 1363(P), 1365(P), 1368(P), 1369(P), 1370(P), 1371(P), 1372(P), 1373(P), 1381(P), 1382(P), 1383(P), 1384(P), 1385(P), 1386(P), 1387(P), 1388(P), 1389(P), 1390(P), 1391, 1392(P), 1393, 1394(P), 1395(P), 1396(P), 1397(P), 1398(P), 1399 to 1414, 1415(P), 1445(P), 1985(P), 1986 to 1997, 1998(P), 1999, 2000, 2001(P), 2002(P), 2072(P), 2084(P), 2085(P), 2086 to 2103, 2104(P), 2107(P), 2114(P), 2115(P), 2116, 2117, 2131(P), 2132(P), 2134(P), 2135(P), 2136 to 2444, 2447 to 2900, 764/2911, 763/2912, 763/2913, 764/2914, 2914/2915, 2915/2916, 767/2917, 768/2918, 2918/2919, 2918/2920, 2301/2921, 2312/2922, 2537/2923, 2831/2924, 2869/2925, 2883/2926, 2228/2927, 2927/2928, 2590/2929, 2590/2930, 2590/2931, 2590/2932, 2590/2933, 2590/2934, 2590/2935, 2590/2936, 2590/2937, 2590/2938, 2590/2939, 2590/2940, 2590/2941, 2590/2942, 2590/2943, 2590/2944, 2590/2945, 2590/2946, 2590/2947, 2590/2948, 2590/2949, 2590/2950, 2590/2951, 2590/2952, 2590/2953, 2590/2954, 2590/2955, 2590/2956, 2590/2957, 2590/2958, 2590/2959, 2590/2960, 2590/2961, 2590/2962, 2590/2963, 2590/2964, 2590/2965, 2590/2966, 2590/2967, 2590/2968, 2590/2969, 2590/2970, 2590/2971, 2590/2972, 2590/2973, 2590/2974, 2590/2975, 2590/2976, 2590/2977, 2590/2978, 2590/2979, 2590/2980, 2258/2986, 1204/2998 and 2949/2985.

(11) Plot numbers acquired in village Gonda: 1 to 172, 173(P), 174(P), 175(P), 176 to 208, 209(P), 210 to 212, 213(P), 214(P), 215(P), 239(P), 240(P), 241(P), 242(P), 247(P), 255(P), 256(P), 257 to 258, 259(P), 260 to 330, 331(P), 332(P), 336(P), 337, 338(P), 340 to 395, 396(P), 397 to 415, 416(P), 7/433, 7/434, 358/435, 403/437, 438 to 491, 142/492(P), 339 and 417(P).

(12) Plot numbers acquired in village Sidpa: 1 to 288, 289(P), 290 to 471, 472(P), 473, 474(P), 476(P), 477, 478(P), 479, 480(P), 375/484 and 466/485.

(13) Plot numbers acquired in village Dahu: 1 to 6, 7(P), 11(P), 12 to 1038, 1039(P), 1040, 1041(P), 1042(P), 1043(P), 1045(P), 1053(P), 1054, 1055, 1056(P), 1057(P), 1058, 1061, 1062(P), 1063 to 1075, 1076(P), 1079(P), 1082(P), 1084(P), 1146(P), 1160(P), 1161(P), 1162(P), 1163, 1164, 1165(P), 1166(P), 1167(P), 1526(P), 1530(P), 1531(P), 1532, 1533, 1534(P), 1540(P), 1541(P), 1544(P), 1545(P), 1546, 1547, 1548,

1549(P), 1550 to 1584, 1585(P), 1586 to 1593, 1594(P), 1595 to 1610, 1611(P), 1612 to 1831, 1832(P), 1833(P), 1834, 1835(P), 1836(P), 1854(P), 1855(P), 1858(P), 1859(P), 1860, 1861, 1862(P), 1863 to 1870, 1871(P), 1872 to 1879, 1880(P), 1882(P), 1889(P), 1890(P), 1891, 1892(P), 1893 to 1901, 1902(P), 1903(P), 1904(P), 1905(P), 2014(P), 158/2015, 370/2016, 633/2017, 452/2031, 746/2018, 747/2019, 748/2020, 896/2021, 896/2022, 860/2030 and 1792/2028.

(14) Plot numbers acquired in village Baragaon: 1(P), 2(P), 3, 4(P), 12(P), 13(P), 14(P), 15, 16(P), 32(P) and 919 (P).

(15) Plot numbers acquired in village Ganeshpur: 504(P), 505(P), 506(P), 507(P), 508(P), 509, 510, 511(P), 520(P), 521(P), 522 to 530, 531(P), 532(P), 535(P), 536(P), 538(P), 539 to 578, 1451(P), 1452 to 1522, 1452/3240, 1480/3248 and 3236.

Boundary Description :

#### Block-A

- A-B-C-D - Line starts from 'A' (Plot no.02) of village Chetar passes through 'B' (different plots of Chetar) and 'C' (Common boundary of village Phulbasia and Chetar) and meets at point 'D' (Common boundary of village Phulbasia and Chetar).
- D-E-F - Line passes through point 'D' and different plots of village Phulbasia and Chamatu, Ara and meets at point 'F' in village Kundi.
- F-G-A - Line passes through point 'F' of village Kundi and passes through village of Kurlounga and common boundary of village Ara and kurlounga, Chamatu and Charra and Phulbasia and meets at starting point 'A' in village Chetar.

#### Block-B

- H-I-J-K - Line starts from point 'H' (Plot no.511 of village Ganeshpur) and passes through bank of Mohan Dhuba Nadi and different plots of village Dahu (at point 'I') Baragaon (at point 'J') Baragaon, Gonda and Sidpa meets at point 'K' in village Raham .
- K-L-M - Line passes through village Raham (at points K, K1, K2) and different plots of village Raham, Kamta (Point L), Masilong, and meets at point 'M' of village Saradhu.
- M-N-O-P-Q-  
R-H - Line passes through different plots of village Saradhu (points 'M' and 'N') point 'O' (Village Masilaung) point 'P', 'Q' and 'R' in village Chamatu and meets at starting point 'H' in village Ganeshpur.

[F. No. 43015/12/2015-LA&IR/Vol.III]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.